

अध्याय - 7

अनोखी यात्रा

इन शब्दों के अर्थ लिखे -

- धमाकेदार - जिसमें जोर की आवाज ।
धर्मशाला - रुकने का स्थान ।
पगडंडियों - कच्चे रास्ते , पतला रास्ते ।
खोज - तलाश ।
दृश्य - जिसे देखा जा सके ।
रोमांचक - रोमांचित होना ।
मनमोहक - आकर्षक ।
चुम्बकीय - चुंबक ।
साइन बोर्ड - दिशा निर्देश देने वाले संकेत चिन्ह का बोर्ड ।
धुंधले - हल्के ।
सन्नाटा - शांति ।
पारदर्शी - जिसके आर पार देखा जा सके ।
स्तब्ध - बिना हिले -डुले ।
जिज्ञासा - जानने की इच्छा ।
जवाहरात - आभूषण ।
घुप्प - घना ।
स्थानीय - उस जगह के रहने वाले ।
सदियों - कई सौ सालों ।

सही तथा गलत का निशान लगाओ -

1. इस बार हॉस्टल पिकनिक पर हम लोग धर्मशाला जा रहे हैं । ✓
2. घूमने के नाम से सभी की आँखों में आँसू आ गए । X
3. किले तक पहुँचनेके लिए हमें कम से कम 200 सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ेगी । X
4. किले के अंदर घुप्प अँधेरा था । ✓
5. किले के अंदर पुरानी मूर्तियाँ और खजाना रखे हुए थे । ✓
6. किले की ऊँचाई से दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था । X

दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखो -

दबे पांव जाना- बिना आहट किए जाना |
सन्नाटा होना - शांत होना |
आँखों में चमक आना - किसी को देख कर खुश होना
मेहनत रंग लाना - प्रभाव दिखना|
डर के मारे पसीने छूटना - अत्यंत भयभीत होना |
आँखें खुली की खुली - आश्चर्यचकित होना |

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए

घुमने , पुराना , घुप्प , आँखें , नाचना, गाना , रोमांचक

1. घूमने के नाम से सबकी आंखों में चमक आ गई |
2. यह रोमांचक यात्रा हमें कभी नहीं भूलेगी |
3. मुदिता और वरुण ने तो यह सुनते ही नाचना और गाना शुरू कर दिया
4. हमारी आँखें तो खुली की खुली रह गई |
5. अंदर एकदम घुप्प अंधेरा था |
6. यह खजाना सदियों पुराना है |

प्रश्नों के उत्तर लिखिए

1. शिखा और उसकी सहेलियाँ स्कूल की ओर से पिकनिक मनाने कहाँ जा रहे थे ?
उत्तर- शिखा और उसकी सहेलियाँ स्कूल की ओर से मैकलेओडगंज पिकनिक मनाने जा रहे थे |
2. किले से दिखाई देने वाली प्राकृतिक दृश्य कैसी थी ?
उत्तर- किले से दिखाई देने वाली प्राकृतिक दृश्य मनमोहक थी |
3. किले के अंदर रोशनी कैसे हुई ?
उत्तर - किले के अंदर शीशे के हिलने पर एक कोण बन गया जिससे चारों तरफ रोशनी हो गई |
4. किले तक पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी ?
उत्तर- किले तक पहुंचने के लिए 400 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी |

5. शिखा और उसकी सहेलियों को खंडहर में क्या मिले ?

उत्तर- शिखा और उसकी सहेलियों को खंडहर में पुरानी मूर्तियाँ और जवाहराते मिले ।

6. पुलिस को खंडहर के अंदर का खजाना कैसे मिला ?

उत्तर - पुलिस को खंडहर के अंदर का खजाना शिखा द्वारा खींची गई फोटो की सहायता से मिली ।

दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ

रोमांचक, मनमोहक, धर्मशाला, आँखों में चमक , सन्नाटा

रोमांचक - यह रोमांचक यात्रा हम कभी नहीं भूल सकते ।

मनमोहक - किले का प्राकृतिक दृश्य मनमोहक है ।

धर्मशाला - हम पिकनिक मनाने धर्मशाला जा रहे हैं ।

आँखों में चमक - घूमने के नाम से सबकी आँखों में चमक आ गई ।

सन्नाटा - किले के चारों तरफ सनाटा था ।